



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 166]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 17, 2005/माघ 28, 1926

No. 166]

NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 17, 2005/MAGHA 28, 1926

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
(सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 फरवरी, 2005

का.आ. 219(अ).— केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के तात्कालीन सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 440 (अ) तारीख 31 मार्च, 2004 द्वारा बिहार राज्य के पूर्व चम्पारण (मोतीहारी) जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-28 के 360.57 कि.मी. से 520.00 कि.मी. (उत्तर प्रदेश/बिहार सीमा - मुजफ्फरपुर) तक के भूखण्ड पर संनिर्माण करने (चौड़ा करने) के लोक प्रयोजन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और, उक्त अधिसूचना का सार “दैनिक जागरण” तारीख 24 जुलाई, 2004 और “दि हिन्दुस्तान टाइम्स” तारीख 24 जुलाई, 2004 में प्रकाशित किया गया था ;

और, सक्षम प्राधिकारी द्वारा उक्त भूमि में हितबद्ध किसी भी व्यक्ति से कोई आक्षेप प्राप्त नहीं किया गया है ;

और, सक्षम प्राधिकारी ने, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट के प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना है ;

और, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित होगी।

अनुसूची

बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-28 के 360.57 कि.मी. से 520.00 कि.मी. तक (उत्तर प्रदेश/बिहार सीमा से मुजफ्फरपुर सेक्शन) को चौड़ा करने के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त वर्णन।

राज्य : बिहार

जिला : पूर्व चम्पारण

क्रम सं.	तालुक का नाम	गाँव का नाम	सर्वेक्षण भूखण्ड सं.	भूमि का प्रकार	भूमि की श्रेणी	अर्जन की जाने वाली भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	भूमि मालिक का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	कोटवा	(1) कोटवा	3422 (बायीं तरफ)	निजी	मकान	0.044	
			3429	निजी	मकान	0.004	बिरेन्द्र प्रसाद सिंह बल्द स्व० राम रतन सिंह, कोटवा
			3481	निजी	मकान	0.020	हरीरन पांडे बल्द शिवशरण पांडे, कोटवा
			3523	निजी	मकान	0.038	महेश राम प्रसाद बल्द स्व० पल्लू राम, हृदय राम बल्द मुखदेव राम, विरेन्द्र प्रसाद सिंह बल्द स्व० रामरतन सिंह कोटवा
			3525	निजी	मकान	0.006	मोतीलाल राम बल्द महेश राम, कोटवा
			3527	निजी	मकान	0.040	बिरेन्द्र प्रसाद सिंह बल्द स्व० राम रतन सिंह, कोटवा
			3528	निजी	मकान	0.027	बिरेन्द्र प्रसाद सिंह बल्द स्व० राम रतन सिंह, कोटवा
			3536	निजी	मकान	0.119	रविनाथ ठाकुर, बल्द मुरारी ठाकुर, बनजरी एवं अनील कुमार दुवे बल्द कुंज बिहारी दुवे, जिवदाहा एवं बंदा साह बल्द गरीब साह, सोना कुँवर पत्नी स्व० गोपाल सिंह, विश्वनाथ सिंह बल्द फोदार सिंह, लालू गोस्वामी बल्द शंकर गोस्वामी, यादोवलाल राय बल्द लोचईराय, कोटवा
			3538	निजी	मकान	0.023	ठाकुर साह बल्द लक्ष्मी साह, कोटवा
			3540	निजी	मकान	0.052	बाबुलाल राय बल्द स्व० सखीचन राय, कोटवा
			3557	निजी	मकान	0.084	
			3560	सरकारी		0.022	जिला परिषद
			3575	सरकारी		0.023	श्री चंचल प्रसाद राय बल्द सूर्या राय, दीपउ
			3578	निजी	मकान	0.071	श्री रामएकबाल राय बल्द कुशुन राय, श्री विजय कुमार बल्द लक्ष्मी महतो, कोटवा
			3579	निजी	मकान	0.048	श्री उदय शंकर सिंह बल्द स्व० जगतनारायण सिंह, श्री सतेन्द्र सिंह बल्द शिववचन सिंह, नरेन्द्र सिंह बल्द शिववचन सिंह, कोटवा
			3580	निजी	मकान	0.023	श्री रामजानकी सेवक, धेनुखारी दास, दीपउ
			3581	निजी	मकान	0.004	श्री बाबुलाल राय बल्द सखीचंद राय, कोटवा
			3582	सरकारी		0.026	बिहार सरकार गैर आम रास्ता
			3583	निजी	मकान	0.037	बिरेन्द्र प्रसाद सिंह बल्द स्व० राम रतन सिंह, कोटवा

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			3584	निजी	मकान	0.002	सचिव श्री भगवान प्रसाद यादव बल्द चंचल प्रसाद राय
			3585	निजी	मकान	0.061	वासुदेव राय बल्द वैघनाथ राय, विजय कुमार यादव, दिनेश कुमार यादव बल्द सत्यदेव राय, चितरीया, बबुनी देवी पति चंदेश्वर सिंह, भगवतीया राम, अनूप राय बल्द जांगी राय, सुनील राय बल्द गणेश राय, जगीर करिया, मोहम्मद तारिक कुरैशी बल्द हनीफ कुरैशी, अनील कुमार यादव, सुनील कुमार यादव बल्द राम किशुन राय, हरदेव राय बल्द रानगी राय, कोटवा, उपेन्द्र यादव बल्द राम देवी राय, विनोद राय बल्द गोरखपुर राय, दीपज, विजय कुमार यादव बल्द रामजीवन प्रसाद यादव, बरहारका कला
			3586	निजी	मकान	0.055	हरिनन राम इत्यादि बल्द वैघनाथ राम, सतीश राम बल्द देवेन्द्र राम, कोटवा
			3587	निजी	मकान	0.108	विनोद कुमार, प्रमोद कुमार बल्द स्व० जगत महतो, लक्ष्मी महता बल्द स्व० देवघासी महतो, विमला देवी पति स्व० अवध बिहारी प्रसाद बल्द कन्हैया लाल, कोटवा एवं शिवसागर प्रसाद बल्द स्व० चिरकुट साह, पकरी अशोक
			3591	निजी	मकान	0.002	रामचंद्र राय बल्द रामजी राय, नंद किशोर राय बल्द रामझा राय, कोटवा
			3592	निजी	मकान	0.081	नरेन्द्र पांडे बल्द विद्यानंद पांडे, बरहमपुरा कोठी, रामायण सिंह बल्द अनूप साह, जै शंकर साह बल्द कन्हैया साह, ओम प्रकाश साह बल्द कन्हैया साह, राम करिपाल साह बल्द स्व राम अदत्तार सिंह, सिद्ध शम्भू साह बल्द जै शंकर साह, वासुदेव राय बल्द वैघनाथ राय, रविन्द्र कुमार बल्द यादो लाल राय, कोटवा
			3595	निजी	मकान	0.022	नरेन्द्र कुमार पांडे बल्द विद्यानंद पांडे, बहरवारा कोठी
			3988	सरकारी		0.024	बिहार सरकार गैर आम रास्ता
			4028	निजी	मकान	0.001	श्याम नारायण साह बल्द वीर सिंह, कोटवा
			4029	निजी	मकान	0.003	विश्वनाथ सिंह बल्द फोद्दार सिंह, ललन पांडे बल्द स्व० गोरख पांडे, कोटवा
			4030	निजी	मकान	0.017	हृदयनंद गोस्वामी बल्द सरयुग गोस्वामी, शिया कुवॉर बल्द शियानंद गोस्वामी, रामबाबू गोस्वामी बल्द रघुनाथ गोस्वामी, चंद्रिका गोस्वामी बल्द रामलखन गोस्वामी, कोटवा
			4031	निजी	मकान	0.031	श्री लालबाबू सिंह बल्द शिव सिंह, बेलवा
			4032	निजी	मकान	0.027	श्री लालबाबू सिंह बल्द शिव सिंह, श्रीमति सीता ठाकुर पति हरेन्द्र प्रसाद ठाकुर, बेलवा
			4034	निजी	मकान	0.037	बृज सिंह बल्द नधुनी सिंह, बच्चा सिंह, विद्या सिंह, विद्यानाथ सिंह बल्द जतन सिंह, श्री द्वारिका सिंह बल्द दीप सिंह कोटवा
		(2) दिपाउ	725 (बांयी तरफ)	सरकारी		0.010	श्री अखलदेव प्रसाद यादव बल्द चंचल प्रसाद राय, दिपाउ
			751	निजी	कृषि	0.011	श्री सुनरदेव राय बल्द बुझावन राय, राजापुर महीया
			755	निजी	कृषि	0.002	श्री विद्या राय बल्द नारायण राय, दिपाउ
			763	निजी	कृषि	0.016	श्री विद्या राय बल्द नारायण राय, दिपाउ

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			764	निजी	कृषि	0.006	श्री बिन्देश्वरी राम बल्द स्व० प्रसाद राम, दिपाउ
			772	निजी	कृषि	0.104	बदरी प्रसाद साह इत्यादि बल्द स्व० काशी साह, विद्या राय बल्द नारायण राय एवं काशी राय बल्द स्व० जनक राय, श्री रामचंद्र राय बल्द कृत राय, शशि भूषण राय बल्द रामदेव राय, नंद किशोर प्रसाद यादव स्व० जगतनारायण सिंह, ब्रज किशोर प्रसाद यादव बल्द गोपाल राय, विनोद प्रसाद यादव बल्द लूरखूर राय, दिपाउ संजय कुमार बल्द माया राम, जमुनापुर एवं सतेन्द्र कुमार बल्द भरत राय, राजापुर, अहरीलिया
			773	निजी	कृषि	0.029	श्री कांति राय एलायस श्याम कांत राय बल्द शिवधारी राय, दीपउ
			774	निजी	कृषि	0.022	श्री बद्री प्रसाद बल्द स्व० काशी साह, कोटवा
			775	निजी	कृषि	0.033	मुरारी राय बल्द सुनार देव राय, चंचल राय बल्द रुद्रल राय, चितरिया श्रीमति रेणु देवी पति योगेश सिंह, जसौली जमुनिया तुन्नीलाल ताल बल्द हरिहर साह, जुगेश्वर प्रसाद बल्द अमृत साह, वेतिया वसंत सुकुल साह बल्द स्व० लोचन साह, बच्चा बिहारी प्रसाद साह बल्द राम अनूप साह, श्री नवल किशोर प्रसाद यादव बल्द जै पाल प्रसाद यादव, दीपउ, श्रीमति गीता देवी पति रमेश पंडित, पोखरा
			794	निजी	कृषि	0.046	राजेन्द्र प्रसाद, सुरेन्द्र प्रसाद बल्द गोपाल प्रसाद, अहरीलिया, राजेन्द्र प्रसाद कुशवाहा, सुरेन्द्र प्रसाद कुशवाहा बल्द गोपाल प्रसाद कुशवाहा एवं सुरेन्द्र प्रसाद कुशवाहा, रामाकांत प्रसाद कुशवाहा बल्द हंसमन प्रसाद कुशवाहा, अहरीलिया, राजापुर, अम्बिका राय बल्द रामजक राय, जसौली पाटी जितेन्द्र प्रसाद, विनोद प्रसाद कृष्णा प्रसाद, अनील प्रसाद बल्द राम सुरत प्रसाद एवं सुमाष प्रसाद बल्द घनेश्वर प्रसाद, हिरौलिया, माथुर राय बल्द दुखी राय, दीपउ
			796	निजी	कृषि	0.030	बदरी प्रसाद बल्द स्व० काशी साह, कोटवा - कांती राय एलीएस श्यामकांत राय बल्द स्व० शिवधारी राय, दीपउ
			799	निजी	कृषि	0.001	सुधीर राय, दिनेश राय बल्द स्व० जगदीश राय, रघुनाथ राय बल्द स्व० लगन राय, बालदेव राय बल्द चितावन राय, दीपउ
			800	निजी	कृषि	0.042	कान्ती राय एलायस श्यामकांत राय बल्द स्व० शिवधारी राय, दीपउ
			807	निजी	कृषि	0.005	भगन नारायण पांडे बल्द सरयुग पांडे, दीपउ
			808	निजी	कृषि	0.001	भगन नारायण पांडे बल्द सरयुग पांडे, दीपउ
			847	सरकारी		0.012	जिला परिषद बिहार सरकार
			850	सरकारी		0.010	जिला परिषद बिहार सरकार
			1105	निजी	कृषि	0.040	अम्बिका राय बल्द स्व० विष्णु राय, विद्या राय बल्द स्व० नारायण राय, बाबुलाल राय बल्द बिलेश राय, रघु राय बल्द रामावतार राय, सुरेन्द्र राय बल्द यदु राय विद्या राय बल्द स्व० नारायण राय, दीपउ
2	पिप्राकोठी	(1) चाँद सरैया	257 (बांयी तरफ)	सरकारी		0.011	बिहार सरकार गैरा मजलूआ
			258,	सरकारी		0.008	बिहार सरकार गैरा आम मजलूआ

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			260	सरकारी		0.017	श्री राम गोविन्द साह बल्द मथुरा साह, श्री बाबु लाल प्रसाद बल्द सरयुग साह, श्री योगेन्द्र प्रसाद बल्द सरयुग साह, राम गोविन्द साह बल्द स्व0 मथुरा साह, चाँद सरैया
			271	सरकारी		0.018	बिहार सरकार गैर मजरूआ
			274	सरकारी		0.010	बिहार सरकार गैर मजरूआ
			275	सरकारी		0.012	सत्यदेव प्रसाद इत्यादि बल्द विष्णु साह, चाँद सरैया
			277	निजी	मकान	0.016	
			278	निजी	मकान	0.030	सत्यदेव प्रसाद इत्यादि बल्द विष्णु साह, सजावल शर्मा बल्द सनफुल शर्मा, चाँद सरैया
			283	सरकारी		0.070	राम अयोध्या शर्मा बल्द सूर्या शर्मा, स्व0 राजदेव शर्मा बल्द सुरेन्द्र शर्मा, राम देवी शर्मा बल्द स्व0 सुंदर शर्मा, जगर नाथ शर्मा बल्द राम चंद्र शर्मा, वैद्यनाथ शर्मा, बल्द राम चंद्र शर्मा, प्रमोद शर्मा, रघुनाथ शर्मा बल्द राम चंद्र शर्मा, रामलाल शर्मा बल्द राम लक्ष्मण साह, एम0 मरिदुला देवी पति राजेश्वर प्रसाद, जयलाल प्रसाद बल्द इंद्र देव प्रसाद, हरिन्द्र प्रसाद बल्द राम लखन साह, जैलाल प्रसाद बल्द इंद्र देव प्रसाद, चाँद सरैया
			519	सरकारी		0.084	वनवारी साह बल्द भागवत साह, राम सागर शर्मा बल्द रामजी मिस्त्री, द्वारिका मिस्त्री बल्द स्व0 दुखा मिस्त्री, सजावल शर्मा बल्द स्व0 सन फुल मिसरा, चाँद सरैया
			285 (लॉन्गी तरफ)	सरकारी/ निजी		0.098	समाज सदन, बिहार सरकार, पंचायत बीर छपरा एवं मोतीलाल जयसवाल बल्द स्व0 सरयुग प्रसाद, श्री सुरेश, श्री रमेश, दिनेश उमेश, राजेश जयसवाल बल्द राम सेवक प्रसाद जयसवाल, श्री हीरा लाल जयसवाल बल्द सरयुग जयसवाल, चाँद सरैया
			510	सरकारी		0.004	बिहार सरकार गैर मजरूआ
			511	सरकारी		0.014	बिहार सरकार गैर मजरूआ
			512	सरकारी		0.014	बिहार सरकार गैर मजरूआ
			520	सरकारी		0.174	एम0 शीतल कुँवर पति स्व0 कामता साह, राम चंद्र साह बल्द स्व0 राम सहाय साह, भोगेन्द्र साह बल्द सरयुग साह एवं राम गोविन्द साह बल्द मथुरा साह, राम गोविन्द साह बल्द स्व0 मथुरा साह, राम चंद्र साह बल्द स्व0 राम सराय साह, चाँद सरैया एवं अशोक कुमार, बाबुलाल प्रसाद बल्द स्व0 सरयुग प्रसाद, सुरेश कुमार जयसवाल बल्द राम सेवक प्रसाद जयसवाल, सुष्मा जयसवाल पति सुरेश कुमार जयसवाल, चाँद सरैया
		(2) पिप्राकोठी	5 (बाँयी तरफ)	सरकारी / निजी		0.119	बृज नंदन साह इत्यादि बल्द स्व0 चंद्रिका साह, विश्वनाथ साह बल्द रामाशीश साह, कमल साह, सीता राम साह बल्द राम स्वस्म साह, रामा घर प्रसाद बल्द गोपाल साह, रामाशीश प्रसाद इत्यादि बल्द स्व0 बिहारी बे, राज कुमार गुप्ता इत्यादि बल्द सीता राम साह, मुनेश्वर अ बल्द स्व0 जगती महतो, परमानंद श्रीवास्तव बल्द स्व0 सरयुग प्रसाद, नंद किशोर वर्मा बल्द अम्बिका प्रसाद शास्वा

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
							प्रसाद, शम्भु किशोर वर्मा, रमेश कुमार श्रीवास्तव बल्द बृज बिहारी प्रसाद, पीपरा काठी, खदर नाथ शर्मा बल्द स्व० किशुन देव शर्मा झखरा मानीक चांद साह बल्द हरि साह, जयनुल हक बल्द रामजान अली, बसंत प्रसाद बल्द राम प्रीत प्रसाद, जीवधारा जै लाल साह बल्द जनक साह, फूलवरिया नगेन्द्र प्रसाद बल्द भोला सिंह, रुद्रल पकरी/ बिहार सरकार
			7	सरकारी / निजी		0.105	श्री किशोर प्रसाद जयसवाल बल्द स्व० राजेन्द्र जयसवाल, राम चंद्र साह बल्द रामाश्रय साह, चांद सरैया - गोरख प्रसाद सिंह बल्द स्व० राम अवतार सिंह, बलथरवा, महेश प्रसाद बल्द नथुनी साह, कमलेश प्रसाद बल्द नथुनी साह, मुर्दाचक, मदन प्रसाद गुप्ता बल्द अच्छेलाल प्रसाद, पीपराकोठी सुखल ठक्कर बल्द राम लगन ठाकुर पंडितपुर/ सरकारी
			12	सरकारी		0.083	कृषि भूमि, पीपराकोठी
			13	सरकारी		0.188	कृषि भूमि, पीपराकोठी
			15	सरकारी		0.004	सरकारी रोड
			507	सरकारी		3.097	अनवर उल हक बल्द स्व० अब्दुल्लाह, ए० अतीफ बल्द स्व० इब्राहिम मियाँ, रियाज, उल. हक बल्द एम० शमीफ, शमशुल हक बल्द एम० शरीफ, एम० ताहीर बल्द एम० शरीफ, एम० जमील अख्तर बल्द स्व० मनवर, एम० आलम बल्द एम० रफीक, एम० मुस्लिम बल्द स्व० तजाक हुसैन, एम० जहीर हुसैन बल्द स्व० अब्दुल सततार, एम० नजीर मियाँ बल्द ए० सततार, एम० एकसमुल्ला बल्द स्व० यूनीस मियाँ, इदरीश मियाँ बल्द स्व० अब्दुल सततार, वाटगंज -कारी राय बल्द स्व० उत्तीम राय, महेन्द्र राय, सत्या देव राय, बल्द स्व० उत्तीम राय, गणेश राय बल्द स्व० उत्तीम राय, बिंदा राय बल्द उत्तीम राय बरकुरवा
			736	सरकारी		0.006	जनरल रोड
			9 (दांयी तरफ)	सरकारी		0.015	सरकारी भूमि
			10	सरकारी / निजी		0.121	सरकारी भूमि / सुरेन्द्र मिस्त्री बल्द स्व० अनिल मिस्त्री, बीरछपरा
			11	सरकारी		0.495	मदन प्रसाद गुप्ता बल्द अच्छेलाल प्रसाद, छोटा लाल साह बल्द स्व० नागा साह, पीपरा कोठी सुशीला देवी पति अच्छेलाल पासवान, किस्म देवी पति मुन्नीलाल राम, हरेन्द्र प्रसाद बल्द योगेन्द्र प्रसाद, एम० सानु उल लाह बल्द एम० शब्बीर, एम० शब्बीर मियाँ बल्द स्व० जुसनान मियाँ, एम० वाकिल बल्द स्व० जुनाब मियाँ, बीरछपरा, सुरेश साह बल्द चंद्रदेव साह पंडितपुर, अरुण कुमार बल्द सूर्यदेव प्रसाद, रतन पुर सुरेश जयसवाल बल्द राम सेवक जयसवाल, मोतीलाल जयसवाल बल्द स्व० सरयुग प्रसाद, सुरेश, रमेश दिनेश, उमेश, राजेश जयसवाल बल्द स्व० राम सेवक जयसवाल, हीरा लाल जयसवाल बल्द स्व० सरयुग जयसवाल, एम० आबीद मियाँ, चाँद सरैया, जगत प्रसाद बल्द स्व०

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
							लमरी शाह, रानग्रह महुआ, शम्भु प्रसाद बल्द शंकर शाह, रामग्रह महुआ एवं श्याम बाबु प्रसाद यादव बल्द सुखाम प्रसाद यादव, मझारिया, साधु राय, परीछन राय, संतु राय बल्द स्व० परीछन राय, गया राय बल्द परीछन राय बंटी राय बल्द स्व० परीछन राय, मकरी महुआवा गजेन्द्र महतो बल्द मुनेश्वर महतो, सुरेश कुमार श्रीवास्तव बल्द स्व० बृज बिहारी प्रसाद, रमेश कुमार श्रीवास्तव बल्द बृज बिहारी प्रसाद, उमेश कुमार श्रीवास्तव बल्द स्व० बृज बिहारी प्रसाद, एम. इंदु कुँवर पति स्व० महेश प्रसाद, एम. इंदु कुँवर पति स्व० महेश प्रसाद, पिपराकोठी
			335	सरकारी / निजी		0.081	धाना पीपराकोठी/ एम० निशाम बल्द स्व० एम० हनीफ, बलथरवा, डॉ० इसराईल बल्द स्व० फौजादार अली, वाटगंज
		(3) हरपुर	1000 (बांगी तरफ)	निजी	कृषि	0.003	राम अवध महतो, रामाश्रय महतो भगवान महता, धनई महतो, बल्द नथुनी महतो, देहे
			999	निजी	कृषि	0.009	श्री जनकधारी इत्यादि
			997	निजी	कृषि	0.008	श्री रामलाल महतो बल्द चौत महतो, देहे
			983	सरकारी		0.005	गैर मजरुआ आम रास्ता
			943	निजी	कृषि	0.013	श्री राजेन्द्र महतो, महेश्वर महतो बल्द मनधारी महतो
			944	निजी	कृषि	0.012	श्री राजेन्द्र महतो, महेश्वर महतो बल्द मनधारी महतो
			968	निजी	कृषि	0.006	श्री बट्टी महतो बल्द निशु महतो, श्री महेन्द्र महतो, अमर महतो बल्द जगनाथ महतो, देहे
			945	निजी	कृषि	0.025	श्री बट्टी महतो बल्द निशु महतो, श्री महेन्द्र महतो, अमर महतो बल्द जगनाथ महतो, देहे
			946	निजी	कृषि	0.035	श्री जोखन महतो बल्द परगस महतो, श्री गोबरी महतो इत्यादि बल्द रामाज्ञा महतो, श्री लक्ष्मण महतो बल्द रघुवीर महतो, श्री भोला महतो बल्द झुना महतो, देहे
			947	निजी	कृषि	0.033	श्री लक्ष्मण महतो बल्द रघुवीर महतो, एम० गोबरी महतो, बल्द रामाज्ञा महतो, एम० सनझरी कुँवर पति स्व० कामाल महतो, एम० किस्मती कुँवर पति राम किशुन महतो, देहे
			948	निजी	कृषि	0.002	श्री नंदलाल महतो बल्द शिवनंदन महतो, एम० सनझरी कुँवर पति स्व० कामाल महतो, एम० किस्मती कुँवर पति राम किशुन महतो, नंदलाल महतो बल्द शिवनन् महतो, देहे
			949	निजी	कृषि	0.051	श्री भगवान बैथा बल्द जनक बेठा, राजदेव बेठा बल्द जनक बेठा, श्री लक्ष्मण बेठा बल्द विशुन बेठा, श्री भगवान बेठा, राज देव बेठा बल्द जनक बेठा, श्री राम किशुन बेठा, रामेश्वर बेठा बल्द धानुख बेठा, श्री राम अवध महतो, रामाश्रय महतो, भगवान महतो, धनई महतो बल्द नथुनी महतो, देहे
			950	निजी	कृषि	0.026	श्री रामअवध महतो, रामश्रय महतो, भगवान महतो, धनई महतो बल्द नथुनी महतो, देहे
			951	निजी	कृषि	0.082	श्री वासुदेव महतो, चानु महतो बल्द अनंत महतो, हरदीप महतो बल्द तलाग महतो, श्यामदेव महतो बल्द खेतु महतो, देहे

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			952	निजी	कृषि	0.032	सुरेन्द्र महतो विरेन्द्र महतो, नागेन्द्र महतो बल्द मधु महतो, श्री वासुदेव महतो बल्द अनंत महतो, श्री वशीश महतो बल्द रामचंद्र महतो, देहे
			955	निजी	कृषि	0.052	श्री नंदलाल महतो बल्द शिवनंदन महतो, एम० किस्मती कूँवर पति स्व० राम किशुन महतो, एम० सनझरी पति स्व० कमाल महतो, देहे
			954	निजी	कृषि	0.074	श्री रामलाल महतो बल्द चौत महतो, श्री मेघु महतो, परीछन महतो, ललन महतो, श्री प्रमोद महतो बल्द ललन महतो, देहे
			671	निजी	कृषि	0.097	श्री बाल हाजरा बल्द लछन हाजरा, द्वारिका पासवान, मुसाफिर पासवान बल्द महंग पासवान, बीरछपरा
			672	निजी	कृषि	0.011	द्वारिका पासवान, मुसाफिर पासवान बल्द महानग पासवान, बीरछपरा
			673	निजी	कृषि	0.042	श्री मलिकार महतो, अशरफी महतो बल्द सुधन महतो, एम० लगनी पति स्व० चनादेव महतो, देवराज महतो, जामधारी महतो बल्द उगन महतो, सूर्या महतो बल्द बुधन महतो, एम० कौशल्या, हारपुर
			674	निजी	कृषि	0.040	श्री अनंत महतो, शनिचर महतो, दशरथ महतो बल्द शिवदेनी महतो, सीताराम महतो, सजावल महतो बल्द किशुन महतो
			675	सरकारी		0.028	एन० एच०
			666	निजी	मकान	0.007	श्री अनंत महतो बल्द शिवदेनी महतो, श्री शनिचर महतो बल्द शिवदेनी महतो, श्री दशरथ महतो बल्द शिवदेनी महतो, सीता राम महतो बल्द किशुन महतो, एम० पानमती पति स्व० सुखारी महतो, सजावल महतो बल्द किशन महतो, देहे
			667	निजी	मकान	0.025	श्री मलिकार महतो, अशरफी महतो बल्द सुधन महतो, जगनाथ महतो, चंद्रदेव महतो बल्द सुधन महतो, जलधारी महतो बल्द उगन महतो, देवराज महतो बल्द उगन महतो, एम० केसिया पति स्व० रूप नारायण महतो, श्री सूर्य महतो बल्द बुधन महतो
			668	निजी	कृषि	0.015	मलीकार महतो, अशफी महतो बल्द सुधन महतो, देहे
			669	निजी	कृषि	0.030	हीरालाल राम, अच्छैलाल राम बल्द मुरत हजरा, बीरछपरा
			691	निजी	कृषि	0.018	जोखन महतो बल्द लगथ महतो, बीरछपरा
			689	निजी	कृषि	0.007	दशरथ महतो, शनिवार महतो, अनंत महतो बल्द शिवदेनी महतो, देहे
			941(दांयी तरफ)	निजी	कृषि	0.002	श्री शंकर राय, जगनाथ राय बल्द रामवरण राय, हीरालाल राय बल्द रामचंद्र राय, गुड्डु राय बल्द जवाहीर राय, देहे
			940	निजी	कृषि	0.004	श्री शंकर राय, जगनाथ राय बल्द रामवरण राय, हारालाल राय बल्द रामचंद्र राय, गुड्डु राय बल्द जवाहीर राय, देहे
			939	निजी	कृषि	0.011	रामजीवन महतो बल्द भरोस महतो, श्री विजली महतो बल्द महेश महतो बल्द नधुनी महतो, राजेन्द्र महतो, महेश्वर महतो बल्द मनधारी महतो, देहे
			933	निजी	कृषि	0.010	बंशी महतो बल्द लखन महतो, श्री विजली महतो

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
							बल्द राधिका महतो, श्री कृष्णा महतो बल्द जगदेव महतो, सिपाही महतो बल्द जगदेव महतो, लक्ष्मीनियाँ पति स्व० मनघारी महतो, देहे
			931	निजी	कृषि	0.034	बंशी महतो बल्द लखन महतो, श्री विजली महतो बल्द राधिका महतो, श्री कृष्णा महतो बल्द जगदेव महतो, सिपाही महतो बल्द जगदेव महतो, लक्ष्मीनियाँ पति स्व० मनघारी महतो, देहे
			916	निजी	कृषि	0.012	एम० अशिया पति स्व० हरि महतो, देहे
			914	निजी	कृषि	0.019	एम० अशिया पति स्व० हरि महतो, देहे
			910	निजी	कृषि	0.028	शिवपुजन महतो इत्यादि बल्द वेगा महतो, जगेश्वर महतो बल्द संतोषी महतो, विष्णुदेव महतो, सुखदेव महतो बल्द जोगन महतो, देहे
			909	निजी	कृषि	0.035	मोतीलाल महतो बल्द सनफूल महतो, शिवपुजन महतो बल्द वेगा महतो, हारिल महतो बल्द रामदयाल महतो, शिव गोविन्द महतो बल्द रामदयाल महतो, राजेन्द्र महतो बल्द रामधारी महतो. रामचंद्र महता बल्द सनफूल महतो, देहे
			906	निजी	कृषि	0.080	बच्चु सिंह बल्द रामस्वरूप सिंह, एम० अगमती कुँवर पति स्व० सुरजीत सिंह, योगेन्द्र सिंह बल्द शिव बंशी सिंह, बीरछपरा, राजेन्द्र महतो, महेश्वर महतो बल्द मनधारी महतो, देहे
			905	सरकारी		0.033	गैर आम
			903	निजी	कृषि	0.032	एम० सनझरी कुँवर पति स्व० कमल महतो, एम किमती कुँवर पति स्व० राम किशुन महतो, देहे-हीरालाल महतो बल्द राम बहादुर महतो पिता शिकारी महतो बल्द वंशी महतो, वागरी दहौरी टोला
			902	निजी	कृषि	0.007	एम० सनझरी कुँवर पति स्व० कमल महतो, एम किमती कुँवर पति स्व० राम किशुन महतो, देहे-हीरालाल महतो, बल्द राम बहादुर महतो पिता शिकारी महतो बल्द वंशी महतो, वागरी दहौरी टोला
			959	निजी	कृषि	0.009	
			858	निजी	कृषि	0.052	लगनी देवी पति चंद्रदेव महतो, जगनाथ महतो बल्द चंद्रदेव महतो, देहे - मोतीलाल प्रसाद, बाबुलाल प्रसाद, राजेन्द्र प्रसाद, योगेन्द्र प्रसाद बल्द आत्मा प्रसाद, शिवनाथ प्रसाद, धेनुख प्रसाद, सुखनंदन प्रसाद, सुरेश प्रसाद, सुदीष्ट प्रसाद बल्द निरंजन प्रसाद, बीरछपरा
			857	निजी	कृषि	0.067	शिवनाथ प्रसाद, सुखनंदन प्रसाद बल्द धेनुख प्रसाद, सुरेश प्रसाद सुदीष्ट प्रसाद बल्द निरंजन प्रसाद, बीरछपरा
			856	निजी	कृषि	0.031	शिवनाथ प्रसाद, सुखनंदन प्रसाद बल्द धेनुख प्रसाद, सुरेश प्रसाद सुदीष्ट प्रसाद बल्द निरंजन प्रसाद, बीरछपरा
			677	निजी	कृषि	0.043	शिवनाथ प्रसाद, सुखनंदन प्रसाद बल्द धेनुख प्रसाद, सुरेश प्रसाद सुदीष्ट प्रसाद बल्द निरंजन प्रसाद, बीरछपरा
			678	निजी	कृषि	0.118	सुरेन्द्र राय बल्द मोलई राय, श्री उमेश राय बल्द

53861/05-3

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
							स्व० जादोलाल राय, देहे
			680	निजी	मकान	0.044	एम० पार्वती पति स्न० जादोलाल राय, देहे
			692	निजी	कृषि	0.018	मलीकार महतो बल्द अवध महतो, देहे
		(4) बीरछपरा	1549 (बांयी तरफ)	सरकारी		0.033	आम गैरमजरूआ रास्ता
			1548	निजी	कृषि	0.069	शिवनाथ प्रसाद बल्द स्व० धेनुख प्रसाद, बीरछपरा, सुखनंदन प्रसाद बल्द धेनुख प्रसाद, सुदीश प्रसाद बल्द स्व० निरंजन प्रसाद, देहे
			1546	निजी	कृषि	0.015	शिवनाथ प्रसाद बल्द स्व० धेनुख प्रसाद, बीरछपरा, सुखनंदन प्रसाद बल्द धेनुख प्रसाद, सुदीश प्रसाद बल्द स्व० निरंजन प्रसाद, देहे
			1545	निजी	कृषि	0.050	जग बहादुर बल्द चैथरू सिंह, संजय सिंह बल्द स्व० युगती सिंह, देहे
			1544	निजी	कृषि	0.100	शिवनाथ प्रसाद बल्द धनेश्वर प्रसाद, महेन्द्रा प्रसाद बल्द स्व० बच्चन प्रसाद, चंदेश्वर प्रसाद बल्द मधु प्रसाद, हरेन्द्र प्रसाद बल्द स्व० महादेव प्रसाद, रघुवीर प्रसाद बल्द सूर्या प्रसाद, देहे
			1542	निजी	कृषि	0.009	बच्छू सिंह बल्द राम स्वल्म सिंह, देहे
			1565	निजी	कृषि	0.004	दीना पंडित बल्द स्व० सुखारी पंडित, बलथरवा
			1543	निजी	कृषि	0.038	मुरत राम बल्द स्व० पुरन हाजरा, रामश्रेय पासवान बल्द स्व० बिगन पासवान, मिनीलाल हाजरा बल्द स्व० सुरत हाजरा, बीरछपरा
			1541	निजी	कृषि	0.056	दरोगा राय, साधु राय बल्द स्व० बुटई राय, बलथरवा
			1540	निजी	कृषि	0.049	दरोगा राय, साधु राय बल्द स्व० बुटई राय, बलथरवा
			1515	निजी	कृषि	0.045	बहादुर पंडित बल्द स्व० बुधन पंडित, बलथरवा, गंगाधर ठाकुर बल्द जनक ठाकुर, बगरी
			1516	निजी	कृषि	0.037	शांति देवी, जोजे शम्भू शरण प्रसाद एवं गंगाधर ठाकुर बल्द जनक ठाकुर, बगरी
			1508	निजी	कृषि	0.004	शांति देवी, जोजे शम्भू शरण प्रसाद एवं गंगाधर ठाकुर बल्द जनक ठाकुर, बगरी
			1509	निजी	कृषि	0.051	गंगाधर ठाकुर बल्द स्व० जनक ठाकुर, बीरछपरा-शांति देवी जोजे शम्भू शरण प्रसाद, बगरी
			1500	निजी	मकान	0.036	किशुन पंडित बल्द स्व० कुनकुन पंडित, धनराज पंडित बल्द रुदल पंडित, बलथरवा
			1497	निजी	मकान	0.028	बहादुर पंडित बल्द स्व० बुधन पंडित, पुरण पंडित बल्द स्व० बुधन पंडित, सलाहा भगत बल्द स्व० रामश्री भगत, बलथरवा
			1494	निजी	मकान	0.021	प्रेम प्रसाद, भरत प्रसाद बल्द स्व० राजधारी प्रसाद
			1493	सरकारी		0.002	रोड गैरमजरूआ
			1512	सरकारी		0.043	रोड गैरमजरूआ
			1444	निजी	मकान	0.005	सुखई राय, बल्द मधुरा राय, धनपत राय बल्द वरण राय, देहे
			1447	निजी	मकान	0.012	सुखई राय, बल्द मधुरा राय, धनपत राय बल्द वरण राय, देहे
			1449	निजी	कृषि	0.007	चौधुर राय बल्द कुम्भा राय, सजावल राय, देहे

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			1455	निजी	कृषि	0.006	अरूण कुमार, वरूण कुमार बल्द श्री गोरख प्रसाद, देहे
			1452	निजी	कृषि	0.013	एम0 कलावती जोजे छट्ट भगत, नथुनी भगत बल्द शिवनारायण भगत, एम0 काँति जोजे लालू भगत, देहे
			1451	निजी	कृषि	0.009	
			1553 (दांयी तरफ)	निजी	कृषि	0.027	बंटी प्रसाद बल्द लचारी प्रसाद, बीरछपरा
			1551	निजी	कृषि	0.031	राजेश्वर सिंह बल्द स्व0 राम अवतार सिंह, बीरछपरा
			1452	निजी	कृषि	0.043	
			1556	निजी	कृषि	0.013	सुखनंदन प्रसाद, शिवनाथ प्रसाद बल्द स्व0 धेनुख प्रसाद, देहे
			1547	निजी	कृषि	0.028	भारती सिंह, रामेश्वर सिंह बल्द इंद्र देव सिंह, देहे
			1559	निजी	कृषि	0.012	अच्छेलाल राम बल्द मुरत राम, देहे
			1561	निजी	कृषि	0.022	वशिष्ठ नारायण सिंह बल्द श्री श्री योगेन्द्र सिंह, देहे
			1562	निजी	कृषि	0.023	वशिष्ठ नारायण सिंह बल्द श्री श्री योगेन्द्र सिंह, देहे
			1563	निजी	कृषि	0.033	किशुनपंडित बल्द स्व0 कुनकुन पंडित, बलथरवा एम0 आशा कुँवर पति भादुक सिंह, बीरछपरा
			1564	निजी	कृषि	0.029	किशुन पंडित बल्द स्व0 कुनकुन पंडित, बलथरवा
			1565	निजी	कृषि	0.063	दीना पंडित बल्द स्व0 सुखारी पंडित, बलथरवा
			1543	निजी	कृषि	0.020	मुरत राम बल्द स्व0 पुरन हाजरा, रामाश्रय पासवान बल्द स्व0 बिगन पासवान, मिनीलाल हाजरा बल्द स्व0 मुरत हाजरा, बीरछपरा
			1537	निजी	कृषि	0.057	शंकर ठाकुर बल्द स्व0 तप्पा ठाकुर, ललन ठाकुर बल्द किशुनदेव ठाकुर, बलथरवा
			1538	निजी	कृषि	0.036	मोतीलाल जयसवाल बल्द स्व0 सरयुग प्रसाद, चाँद सरैया
			1539	निजी	कृषि	0.021	जितन प्रसाद बल्द स्व0 पुनीत प्रसाद, बलथरवा
			1517	निजी	कृषि	0.015	शंकाल प्रसाद बल्द धनई प्रसाद, देहे
			1507	निजी	कृषि	0.009	गंगाधर ठाकुर बल्द स्व0 जनक ठाकुर देहे
			1518	निजी	कृषि	0.006	सकल प्रसाद बल्द धनई प्रसाद, बलथरवा
			1506	निजी	कृषि	0.017	योगेन्द्र प्रसाद कुशवाहा बल्द स्व0 रामवरण प्रसाद, बलथरवा
			1505	निजी	कृषि	0.023	रामचंद्र पंडित बल्द मंगल पंडित, बलथरवा
			1504	निजी	कृषि	0.008	योद्धा राम बल्द स्व0 कृत राय बलथरवा
			1501	निजी	मकान	0.023	भरत प्रसाद बल्द स्व0 अशफ़ी प्रसाद, बलथरवा
			1502	निजी	मकान	0.007	गोरख प्रसाद सिंह बल्द स्व0 राम अवतार प्रसाद सिंह
			1499	निजी	मकान	0.018	सुरेन्द्र मिस्त्री बल्द अनुरुद्ध मिस्त्री एवं गणेश शर्मा, राजेश्वर शर्मा बल्द स्व0 राम चंद्र शर्मा, बलथरवा
			1493	सरकारी		0.016	रोड, गैर मजूरआ

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			1492	निजी	कृषि	0.019	रामानारायण प्रसाद बल्द स्व० लखी प्रसाद, जोगेश प्रसाद बल्द स्व० इंदरसन प्रसाद बलथरवा
			1473	निजी	कृषि	0.020	ऋषिमुनि राय बल्द रामरूप राय, सुरज राय, बीरवल राय बल्द दहारी राय, बलथरवा
			1469	निजी	कृषि	0.005	बीरवल राय बल्द स्व० दहारी राय, बलथरवा
			1462	निजी	कृषि	0.006	सकलदेव प्रसाद बल्द स्व० घनई प्रसाद, महेन्द्र प्रसाद बल्द बच्चन प्रसाद, बलथरवा
			1463	निजी	कृषि	0.007	हाकिम गिरी बल्द स्व० सेठ गिरी, देहे
			1467	निजी	कृषि	0.006	सत्य नारायण गिरी बल्द पेखु गिरी, देहे
			1464	निजी	कृषि	0.007	मु० जीजे राजेन्द्र राय
			1457	निजी	कृषि	0.004	रोड, गैर मजरुआ
3	चकिया	(1) पेरसौनी खेम	2 (बांयी तरफ)	निजी	कृषि	0.035	श्री मदन कुमार प्रसाद बल्द राम बृक्ष प्रसाद, चकवारा, श्री शम्भू महतो, मदन महतो बल्द कैलाश महतो, एम० सुशीला पति स्व० सुभाष महतो, परसौनी खेम, देवघारी महतो बल्द मोला महतो, हीरा महतो बल्द होरिल महतो, लगन महतो बल्द होरिल महतो, देहे
			7	निजी	कृषि	0.094	अदालती महतो, अशरफा महतो, जयनाथ महतो, सोनालाल महतो बल्द लगन महतो, लगन महतो बल्द होरिल महतो, श्रीमति धरोहरी देवी पति लगन महतो, ललन सिंह बल्द परमेश्वर सिंह, देहे, महेश्वरी सिंह बल्द सुधीर सिंह बल्द चकवारा
			8	निजी	कृषि	0.054	सुखी राय बल्द महादेव राय, श्री अजय राय बल्द परीछन राय, देहे
			18	निजी	कृषि	0.135	रामशवद सिंह बल्द राजा सिंह, ललन सिंह बल्द परमेश्वर सिंह, देहे
			48	निजी	कृषि	0.003	सूर्या भगत बल्द गोखुल भगत, देहे
			49	निजी	कृषि	0.119	अखिलेश्वर प्रसाद बल्द योगेन्द्र प्रसाद, बंशी भगत बल्द गोखुल भगत, देहे
			50	निजी	कृषि	0.063	श्री ववन द्वेदी, शशि मुषण द्वेदी, अमरेन्द्र द्वेदी, नरेन्द्र द्वेदी बल्द राम चंद्र द्वेदी, श्री योद्धा भगत बल्द सुरत भगत, देहे
			62	निजी	कृषि	0.011	श्री अनारस महतो बल्द शिवधारी महतो, देहे
			63	निजी	कृषि	0.061	श्री मोला महतो बल्द घोरई महतो, श्री गणेश महतो, विलाश महतो, हरिहर महतो, योगेन्द्र महतो, मिलक धारी महतो बल्द खेलावन महतो, देहे
			64	निजी	कृषि	0.052	योगेन्द्र प्रसाद बल्द महेन्द्र प्रसाद
			65	निजी	कृषि	0.048	श्री पतिराम राय बल्द धेनुषधारी राय, देहे
			66	निजी	कृषि	0.042	रामवृक्ष महतो बल्द बुलकारी महतो, देहे
			67	निजी	कृषि	0.020	श्री किशुन राय बल्द शिव मंगल राय, देहे
			68	निजी	कृषि	0.024	श्री किशुन राय बल्द शिव मंगल राय देहे
			70	निजी	कृषि	0.057	पशुपति नाथ खेतान बल्द राज कुमार खेतान, मोतीहारी स्टेशन रोड
			71	निजी	कृषि	0.002	श्री लगन महतो बल्द होरिल महतो, देहे

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			72	निजी	कृषि	0.053	पति राम राय बल्द धेनुषधारी राय, देहे
			74	निजी	कृषि	0.025	पशुपति नाथ खेतान बल्द राज कुमार खेतान, मोतीहारी स्टेशन रोड
			75	निजी	कृषि	0.010	श्री जलधारी महतो बल्द मोला महतो, देहे
			1561	निजी	कृषि	0.049	श्री योद्धा भगत, बद्री भगत, जीतु भगत बल्द सुरत भगत, देहे, श्री रामबाबु सिंह बल्द चंद्रिका सिंह, नरकटिया एवं श्रीमति शांति देवी पति कपिल देव सिंह, चकवारा, भखरी
			99 (दांयी तरफ)	निजी	कृषि	0.615	पशुपति नाथ खेतान बल्द राज कुमार खेतान, मोतीहारी स्टेशन रोड
			102	निजी	कृषि	0.381	पशुपति नाथ खेतान बल्द राज कुमार खेतान, मोतीहारी स्टेशन रोड
			105	निजी	कृषि	0.698	पशुपति नाथ खेतान बल्द राज कुमार खेतान, मोतीहारी स्टेशन रोड, श्री बैजूलाल राय बल्द राम एकवाल राय एवं उत्तम राय, राम बहादुर राय, राम स्नेही राय बल्द राम देशु राय, देहे
			106	निजी	कृषि	0.451	चम्पारण सुगर फैक्टरी, चकिया
			107	निजी	कृषि	0.282	
			108	निजी	कृषि	0.122	
			109	निजी	कृषि	0.052	
			126	निजी	कृषि	0.061	
			127	निजी	कृषि	0.233	
			128	निजी	कृषि	0.107	
			129	निजी	कृषि	0.114	
			135	निजी	कृषि	0.007	
			137	निजी	कृषि	0.081	
			138	निजी	कृषि	0.124	
			139	निजी	कृषि	0.110	
			141	निजी	कृषि	0.051	
			142	निजी	कृषि	0.010	श्री अजय राय बल्द परीछन राय, देहे
			1560	निजी	कृषि	0.060	

[फ. सं. भारतप्र/40020/2/सी-III/2002/तक-III]

आलौक रावत, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

(Department of Road Transport and Highways)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th February, 2005

S.O. 219(E).— Whereas by notification of the Government of India in the then Ministry of Road Transport and Highways, number S. O. 440(E), dated 31st March, 2004, issued under sub-section (3) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of

5389F105-4

1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule appended to that notification for the public purpose of construction (widening) of National Highway No. 28 on the stretch from Km. 360.57 to Km. 520.00 (UP/Bihar Border – Muzaffarpur) in District East Champaran (Motihari) in the State of Bihar;

And whereas, the substance of the said notification was published in "The Dainik Jagaran" dated 24th July, 2004 and in "The Hindustan Times" dated 24th July, 2004;

And whereas no objections have been received by the competent authority from any person interested in the land;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the Schedule annexed hereto are to be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on the publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the Schedule annexed hereto shall vest absolutely in the Central Government free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land with or without structure to be acquired for widening of National Highway No. 28 from Km. 360.57 to Km. 520.00 (UP/Bihar Border to Muzaffarpur section) in District East Champaran (Motihari) in the State of Bihar

State: Bihar

District: East Champaran

Sl. No.	Name Of Taluk	Name Of Village	Survey Plot No.	Type Of Land	Category Of Land	Area To Be Acquired (Hectare)	Name Of Land Owner/Interested Person
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Kotwa	(1) Kotwa	3422 (Left)	Private	Built Up	0.044	
			3429	Private	Built Up	0.004	Virendre Pr. Singh s/o-Late Ram Ratan Singh, Kotwa
			3481	Private	Built Up	0.020	Harinan Pande s/o-Shivsaran Pande, Kotwa
			3523	Private	Built Up	0.038	Mahesh Ram Pr.s/o-Late Paltoo Ram, Hridaya Ram s/o-Mukhdev Ram, Virendre Pr. Singh s/o-Late Ram Ratan Singh, Kotwa
			3525	Private	Built Up	0.006	Motilal Ram s/o-Mahesh Ram, Kotwa
			3527	Private	Built Up	0.040	Virendre Pr. Singh s/o-Late Ram Ratan Singh, Kotwa
			3528	Private	Built Up	0.027	Virendre Pr. Singh s/o-Late Ram Ratan Singh, Kotwa
			3536	Private	Built Up	0.119	Ravinath Thakur s/o-Murari Thakur, Bangri & Anil Kumar Dube s/o-Kunj Bihari Dube, Jiv Dahi & Bindu Sah s/o-Garib Sah, Sona Kunwar w/o-Late Gopal Singh, Viswath Singh s/o-Fodaar Singh, Lalu Goswami s/o-Sankar Goswami, Yadolal Rai s/o-Lochai Rai, Kotwa

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			3538	Private	Built Up	0.023	Thakur Sah s/o-Lakshmi Sah,Kotwa
			3540	Private	Built Up	0.052	Babulal Rai s/o-Late Sakhichan Rai,Kotwa
			3557	Private	Built Up	0.084	
			3560	Govt.		0.022	District Board Bihar
			3575	Govt.		0.023	Sri Chanchal Pr.Rai s/o-Surya Rai,Dipau
			3578	Private	Built Up	0.071	Sri Ramkbal Rai s/o-Kushun Rai,Sri vijay Kumar s/o-Lakshmi Mahto,Kotwa
			3579	Private	Built Up	0.048	Sri Uday Shankar Singh s/o-Late Jagatnarayan Singh,Sri Satyendro Singh s/o-Shivbachan Singh,Narendro Singh s/o-Shivbachan Singh,Kotwa
			3580	Private	Built Up	0.023	Sri Ram Janaki Sewak,Dhenukh Dhari Das,Dipau
			3581	Private	Built Up	0.004	Sri Babulal Rai s/o-Sakhichan Rai,Kotwa
			3582	Govt.		0.026	Government Of Bihar Gair Aam Raasta
			3583	Private	Built Up	0.037	Virendro Pr. Singh s/o-Late Ram Ratan Singh,Kotwa
			3584	Private	Built Up	0.002	Sachiv Sri Bhagwan Pr.Yadav s/o-Chanchal Pr. Rai
			3585	Private	Built Up	0.061	Vasudev Rai s/o-Baidhyanath Rai,Vijay Kmr Yadav,Dinesh Kmr Yadav s/o-Satya Dev Rai,Chitriya-Babuni Devi w/o-Chandeswer Singh,Bhagwati-Ram Anup Rai s/o-Jangi Rai,Sunil Rai s/o-Ganesh Rai,Jagir Karia-Mohammad Tarique Quraishi s/o-Hanif Quraishi,Anil Kmr Yadav,Sunil Kmr Yadav s/o-Ram Kishun Rai,Hardev Rai s/o-Rangi Rai,Kotwa-Upendro Yadav s/o-Ram Dev Rai,Vinod Rai s/o-Gurakhhar Rai,Dipau-Vijay Kmr Yadav s/o-Ram Jivan Pr.Yadav,Barharka Kala
			3586	Private	Built Up	0.055	Harinar Ram etc. s/o-Late Baidhyanath Ram,Satis Ram s/o-Devnandan Ram,Kotwa
			3587	Private	Built Up	0.108	Vinod Kmr,Pramod Kmr. s/o-Late Jagat Mahto,Lakshmi Mahto s/o-Late Devdhar Mahto,Vimla Devi w/o-Late Awadh Bihari,M.Gayetri Devi w/o-Late Madan Sah,Awadh Bihari Pr.s/o-Kanhayia Lal,Kotwa&Shivsagar Pr.s/o-Late Chirkut Sah,Pakri Ashok S.
			3591	Private	Built Up	0.002	Ramchandre Rai s/o-Ramji Rai,Nand Kishore Rai s/o-Ramagya Rai,Kotwa
			3592	Private	Built Up	0.081	Narendro Pande s/o-Vidyanand Pande,Barharwa Kothi-Ramayan Singh s/o-Anup Singh,Jai Shankar Shah s/o-Kanhayia Sah,Om Prakash Sah s/o-Kanhayia Sah,Ram Kripal Singh s/o-Late Ram Avtar Singh,Shiv Shambhu Sah s/o-Jai Shankar Sah,Vasudev Rai s/o-Baidhyanath Rai,Ravindro Kumar s/o-Yado Lal Rai,Kotwa
			3595	Private	Built Up	0.022	Narendro Kumar Pande s/o-Vidhanand Pande,Baharwara Kothi
			3988	Govt.		0.024	Government Of Bihar Gair Aam Raasta
			4028	Private	Built Up	0.001	Shyam N.Singh s/o-Vir Singh,Kotwa
			4029	Private	Built Up	0.003	Viswnath Singh s/o-Fodaar Singh,Lalan Pande s/o-Late Gorakh Pande,Kotwa
			4030	Private	Built Up	0.017	Hridyanand Goswami s/o-Saryug Goswami,Siya Kunwar w/o-Siyanand Goswami,Rambabu Goswami s/o-Raghnath Goswami,Chandrika Goswami s/o-Ramlakhan Goswami,Kotwa
			4031	Private	Built Up	0.031	Sri Lalbabu Singh s/o-Shiv Singh,Belwa
			4032	Private	Built Up	0.027	Sri Lalbabu Singh s/o-Shiv Singh,Smt.Rita Thakur w/o-Harendro Pr.Thakur,Belwa
			4034	Private	Built Up	0.037	Brij Singh s/o-Nathuni Singh,Bachha Singh,Baidhya Nath Singh s/o-Jatan Singh,Sri Dwarika Singh s/o-Deep Singh,Kotwa

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		(2) Dipau	725 (Left)	Govt.		0.010	Sri Alakhdev Prasad Yadav s/o-Chanchal Pr.Rai,Dipau
			751	Private	Agriculture	0.011	Sri Sunardev Rai s/o-Bujhawan Rai,Rajapur Mahia
			755	Private	Agriculture	0.002	Sri Vidya Rai s/o-Narayan Rai,Dipau
			763	Private	Agriculture	0.016	Sri Vidya Rai s/o-Narayan Rai,Dipau
			764	Private	Agriculture	0.006	Sri Bindeshwari Ram s/o-Late Prasad Ram,Dipau
			772	Private	Agriculture	0.104	Badri Prasad Sah etc.s/o-Late Kasi Sahi,Vidya Rai s/o-Narayan Rai & Kasi Rai s/o-Late Janak Rai,Sri Ramchandre Rai s/o-Krit Rai,Shashi Bhushan Rai s/o-Ramdev Rai,Nand Kishor Pr.Yadav s/o-Late Jagatnarayan Sinh,Braj Kishore Pr.Yadav s/o-Gopal Rai,Vinod Pr.Yadav s/o-Lurkhur Rai,Dipau-Sanjay Kumar.s/o-Maya Ram,Jamunapur & Satendre Kumar.s/o-Bharat Rai,Rajapur,Ahiraulia
			773	Private	Agriculture	0.029	Sri Kanti Rai alias Shyam Kant Rai s/o-Shiv Dhari Rai,Dipau
			774	Private	Agriculture	0.022	Sri Badri Prasad s/o-Late Kashi Sah,Kotwa
			775	Private	Agriculture	0.033	Muran Rai s/o-Sunar Dev Rai,Chanchal Rai s/o-LateRudal Rai,Chitria-Smt. Renu Devi w/o-Yogesh Sinh,Jasauli Jamunia-Munnial Sah s/o-Harihar Sah,Jugeswer Pr.s/o-Amrit Sah,Betia Vasant-Sukhal Sah s/o-Late Lochan Sah,Bachha Bihari Pr.Sah s/o-Ram Anup Sah,Sri Naval Kishore Pr.Yadav s/o-Jai Pal Pr.Yadav,Dipau-Smt.Gita Devi w/o-Ramesh Pandit,Pokhra
			794	Private	Agriculture	0.046	Rajendre Pr,Surendre Pr.s/o-Gopal Pr.,Ahiraulia,Rajendre Pr.Kushwaha,Surendre Pr.Kushwaha s/o-Gopal Pr.Kushwaha & Surendre Pr.Kushwaha,Ramakant Pr.Kushwaha s/o-Hiraman Pr.Kushwaha,Ahiraulia,Rajapur-Ambika Rai s/o-Ramjas Rai,Jasauli Patti-Jtendre Pr,Vinod Pr,Kishna Pr,Anil Pr. s/o Ram Suror Pr. & Subhash Pr. s/o-LateDhanishwar Prasad,Ahiraulia-Mathur Rai s/o-Dukhi Rai,Dipau
			796	Private	Agriculture	0.030	Badri Pr.s/o-Late Kashi Sah,Kotwa-Kanti Rai alias Shyamakant Rai s/o-Late Shiv Dhari Rai,Dipau
			799	Private	Agriculture	0.001	Sudhir Rai,Dinesh Rai s/o-Late Jagdish Rai,Raghunath Rai s/o-Late Lagan Rai,Baldev Rai s/o-Cinetaman Rai,Dipau
			800	Private	Agriculture	0.042	Kanti Rai alias Shyamakant Rai s/o-Late Shiv Dhari Rai,Dipau
			807	Private	Agriculture	0.005	Bhag Narayan Pande s/o-Saryug Pande,Dipau
			808	Private	Agriculture	0.001	Bhag Narayan Pande s/o-Saryug Pande,Dipau
			847	Govt.		0.012	District Board,Government of Bihar
			850	Govt.		0.010	District Board,Government of Bihar
			1105	Private	Agriculture	0.040	Ambika Rai s/o-Late Vishun Rai,Vidya Rai s/o-Late NarayanRai,Babulal Rai s/o-Belash Rai,Raghu Rai s/o-Ramavtar Rai,Surendre Rai s/o-Yadu Rai,Vidya Rai s/o-Late Narayan Rai,Dipau
2	Piprakothi	(1) Chand Saraiya	257 (Left)	Govt.		0.011	Government of Bihar(Gair Majrua)
			258	Govt.		0.008	Government of Bihar(Gair Aam Majrua)
			260	Govt.		0.017	Sri Ram Govind Sah s/o- Mathura Sah,Sri Babu Lal Pr.s/o-Saryug Sah,Sri Yogendre Pr.s/o-Saryug Sah,Ram Govind Sah s/o-Late Mathura Sah,Chand Saraiya
			271	Govt.		0.018	Government of Bihar(Gair Majrua Thekedar)
			274	Govt.		0.010	Government of Bihar(Gair Majrua Thekedar)
			275	Govt.		0.012	Satya Dev Pr. Etc.s/o-Vishun Sah,Chand Saraiya
			277	Private	Built Up	0.016	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			278	Private	Built Up	0.030	Satya Dev Pr. Etc.s/o-Vishun Sah,Sajawal Sharma s/o-San Phool Sharma,Chand Saraiya
			283	Govt.		0.070	Ram Ayodhya Sharma s/o- Surya Sharma,Rajdev Sharma S/o-Late Sunder Sharma,Ram Deni Sharma S/o-Late Sunder Sharma,Jagar Nath Sharma s/o-Ram Chandre Sharma,Baidhyanath Sharma s/o-Ram Chandre Sharma,Pramod Sharma,Raghunath Sharma s/o-Ram Chandre Sharma,Ramlal Sah s/o-Ram Lakhan Sah,M.Mridula Devi w/o-Rajeshwer Pr.,Jailal Pr.s/o-Indre Dev Prasad,Harendre Pr.s/o-Ram Lakhan Sah,Jailal Pr.s/o-Indre Dev Prasad,Chand Saraiya
			519	Govt.		0.084	Banwari Sah s/o-Bhagwat Sah,Ram Sagar Sharma s/o-Late Ramji Mistri,Dwarika Mistri s/o-Late Dukha Mistri,Sajawal Sharma s/o-Late San Phool Mishra,Chand Saraiya
			285 (Right)	Govt./ Private		0.098	Samaj Sadan, Government of Bihar, Panchayat-Beer Chhapra & Motilal Jaiswal s/o- Late Saryug Pr.,Sri Suresh,Sri Ramesh,Dinsh,Umesh,Rajesh Jaiswal s/o-Ram Sewak Pr.Jaiswal,Sri Hira Lal Jaiswal s/o-Late Saryug Jaiswal,Chand Saraiya
			510	Govt.		0.004	Government Land Gair Majrua
			511	Govt.		0.014	Government Land Gair Majrua
			512	Govt.		0.014	Government Land Gair Majrua
			520	Govt.		0.174	M.Shital Kunwar w/o-Late Kamta Sah,Ram Chandre Sah s/o-Late Ram Shray Sah,Bhogendre Sah s/o-Saryug Sah & Ram Govind Sah s/o-Mathura Sah,Ram Govind Sah s/o-Late Mathura Sah,Ram Chandre Sah s/o-Late Ram Shray Sah,Chand Saraiya & Ashok Kumar,Babulal Prasad s/o-Late Saryug Prasad,Suresh K.Jaiswal s/o-Ram Sewak Pr.Jaiswal,Sushma Jaiswal w/o-Suresh K.Jaiswal,Chand Saraiya
	(2) Piprakothi	5 (Left)		Govt./ Private		0.119	Brij Nandan Sah etc s/o-Late Chandrika Sah,Viswnath Sah s/o-Ramashis Sah,Kamal Sah,Sita Ram Sah s/o-Ram Swaroop Sah,Rama Dhar Prasad s/o-Gopal Sah,Ramashis Prasad etc.s/o-LateBihari Mahto,Raj Kumar Gupta etc.s/o-Sita Ram Sah,Muneshwer Mahto s/o-Late Jangali Mahto,Parmanand Shrivastav s/o-Late Saryug Prasad,Nand Kishore Verma s/o-Ambika Pr,Sharda Pr,Shambhu Kishore Verma,Ramesh Kmr Shrivastav s/o-Brij Bihari Pr.,Pipra Kothi-Kedar Nath Sharma s/o-Late Kishun Dev Sharma,Jhakhra-Manik Chand Sah s/o-Hari Sah,Jainul Haque s/o-Ramzan Ali,Basant Pr. s/o-Ram Prit Pr.,Jiv Dhara-Jai Lal Sah s/o-Janak Sah,Phulwaria-Nagendre Prasad s/o-Bhola Singh,Rudal Pakri/Government Land
			7	Govt./ Private		0.105	Sri Kishore Pr.Jaiswal s/o-LateRajendre jaiswal,Ram Chandre Sah s/o-Ramashray Sah,Chand Saraiya-Gorakh Pr.Sinh s/o-LateRam Avtar Prasad,Baltharwa-Mahesh Prasad s/o-Nathuni Sah,Kamlesh Pr.s/o-Late Nathuni Sah,MurdaChak-Madan Pr.Gupta s/o-Achhe Lal Prasad,Pipra Kothi-Sukhal Thakur s/o-Ram Lagan Thakur,Panditpur-Government Land
			12	Govt.		0.083	Agricultural Land,Pipra Kothi
			13	Govt.		0.188	Agricultural Land,Pipra Kothi
			15	Govt.		0.004	Government Road
			507	Govt.		3.097	Anwar-ul-Haque s/o-Late Abdullah,A. Latif s/o-Late Ibrahim Miyan,Reyaz-ul-Haque s/o-Late M. Sarif,Shamsul Haque s/o-M. Sarif,M. Tahir s/o-M. Sarif,M. Jamil Akhtar s/o-Late Manavar,M. Alam s/o-M. Rafique,M. Muslim s/o-Late Tuzaque Husain,M. Zaheer Husain s/o-Late Abdul Sattar,M. Nazeer Miyan s/o-Late A. Sattar,M. Ekraamulla s/o-Late Yunis Miyan,Idris Miyan s/o-Late Abdul Sattar,Wat Ganj-Kari Rai s/o-Late Uttim Rai,Mahendre Rai,Satya Dev Rai s/o-Late Uttim Rai,Ganesh Rai s/o-Late Uttim Rai,Binda Rai s/o-Late Uttim Rai,BarKurwa

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			736	Govt.		0.006	General Road
			9 (Right)	Govt.		0.015	Government Land
			10	Govt./ Private		0.121	Government Land/Surendre Mistri s/o-Late Anirudh Mistri, Beer Chhapra
			11	Govt.		0.495	Madan Pr. Gupta s/o-Achhe Lal Prasad, Chhote Lal Sah s/o-Late Naga Sah, Pipra Kothi-Sushila Devi w/o-Achhe Lal Paswan, Kiran Devi w/o Munnilal Ram, Harendre Pr. s/o-Yogendre Prasad, M. Sana-ul-Lah s/o- M. Sabeer, M. Sabeer Miyan s/o-Late Junaal Miyan, M. Waquil s/o- Late Junaab Miyan, Beer Chhapra-Suresh Sah s/o-Chandre Dev Sah, Pandit Pur-Arun Kumar s/o-Surya Dev Prasad, Ratan Pur-Suresh Jaiswal s/o-Ram Sewak Jaiswal, Moti Lal Jaiswal s/o-Late Saryug Prasad, Suresh, Ramesh, Dinesh, Umesh, Rajesh Jaiswal s/o-Late Ram Sewak Jaiswal, Hira Lal Jaiswal s/o-Late Saryug Jaiswal, M. Aabid Miyan, Chand Saraiya-Jagat Prasad s/o-Late Damri Sah, Ramgarh Mahua-Shambhu Pr. s/o-Shankar Sah, Ramgarh Mahua & Shyam Babu Pr. Yadav s/o-Sukhran Pr. Yadav, Majhria-Sadhu Rai s/o-Late Parichhan Rai, Santu Rai s/o-Late Parichhan Rai, Gaya Rai s/o- Parichhan Rai, Banti Rai s/o-Late Parichhan Rai, Makri Mahua-Gajendre Mahto s/o-Muncshwer Mahto, Suresh K. Shrivastav s/o-Late Brij Bihari Pr., Ramesh Kumar Shrivastav s/o-Brij Bihari Pr. Umesh Kumar Shrivastav s/o-Late Brij Bihari Pr. M. Indu Kunwar w/o-Late Mahesh Pr., M. Indu Kunwar w/o-Late Mahesh Pr., P
			335	Govt./ Private		0.081	Thana Pipra Kothi/M. Naisham s/o-Late M. Haneef, Baltharva-Dr. Ismail s/o-Late Faujdaar Ali, Wat Ganj- Satyam Singh s/o-Late Lakshmi Singh, Ahir Whalia
	(3) Harpur		1000 (Left)	Private	Agriculture	0.003	Ram Awadh Mahto, Ramashray Mahto, Bhagwan Mahto, Dhanai Mahto s/o-Nathuni Mahto, Dehe
			999	Private	Agriculture	0.009	Sri Janak Dhari, Akalu Mahto s/o-Usaini Mahto, Dehe
			997	Private	Agriculture	0.008	Sri Randal Mahto s/o-Chaut Mahto, Dehe
			993	Govt.		0.005	Gair Majarua Aam Raasta
			943	Private	Agriculture	0.013	Sri Rajendro Mahto, Mahashwer Mahto s/o-Mandhari Mahto
			944	Private	Agriculture	0.012	Sri Rajendro Mahto, Mahashwer Mahto s/o-Mandhari Mahto
			968	Private	Agriculture	0.006	Sri Vadri Mahto s/o-Nisu Mahto, Sri Mahendro Mahto, Amar Mahto s/o-Jagnath Mahto, Dehe
			945	Private	Agriculture	0.025	Sri Vadri Mahto s/o-Nirsu Mahto, Sri Mahendro Mahto, Amar Mahto s/o-Jagnath Mahto, Dehe
			946	Private	Agriculture	0.035	Sri Jokhan Mahto s/o-Pragas Mahto, Sri Govri Mahto etc s/o- Ramagya Mahto, Sri Lakshman Mahto s/o-RaghuBeer Mahto, Sri Bhola Mahto s/o-Jhuna Mahto, Dehe
			947	Private	Agriculture	0.033	Sri Lakshman Mahto s/o-RaghuBeer Mahto, Govri Mahto s/o- Ramagya Mahto, M. Sanjhri Kunwar w/o-Late Kamal Mahto, M. Kismati Kunwar w/o-Ram Kishun Mahto, Nand Lal Mahto s/o-Shiv Nandan Mahto, Dehe
			948	Private	Agriculture	0.002	Sri Nandlal Mahto s/o-Shivnandan Mahto, M. Sanjhri Kunwar w/o-Late Kamal Mahto, M. Kismati Kunwar w/o-Ram Kishun Mahto, Nandlal Mahto s/o-Shivnandan Mahto, Dehe
			949	Private	Agriculture	0.051	Sri Bhagwan Baitha s/o-Janak Baitha, Rajdev Baitha s/o- Janak Baitha, Sri Lakshman Baitha s/o-Visun Baitha, Sri Bhagwan Baitha, Raj Dev Baitha s/o-Janak Baitha, Sri Ram Kishun Baitha, Rameshwer Baitha s/o-Dhanukh Baitha, Sri Ram Awadh Mahto, Ramashray Mahto, Bhagwan Mahto, Dhanai Mahto s/o-Nathuni Mahto, Dehe
			950	Private	Agriculture	0.026	Sri Ram Awadh Mahto, Ramashray Mahto, Bhagwan Mahto, Dhanai Mahto s/o-Nathuni Mahto, Dehe
			951	Private	Agriculture	0.082	Sri Vasudev Mahto, Chanu Mahto s/o-Anant Mahto, Hardeep Mahto s/o-Yalang Mahto, Shyamdev Mahto s/o-Khetu Mahto, Dehe

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			952	Private	Agriculture	0.032	Surendre Mahto, Virendre Mahto, Nagendre Mahto s/o-Medhu Mahto, Sri Vasudev Mahto s/o-Anant Mahto, Sri Vasist Mahto s/o-Ram Chandre Mahto, Dehe
			955	Private	Agriculture	0.052	Sri Nand Lal Mahto s/o-Shivnandan Mahto, M. Kismati Kunwar w/o-Late Ram Kishan Mahto, M. Sanjhari w/o-Late Kamal Mahto, Dehe
			954	Private	Agriculture	0.074	Sri Ramlal Mahto s/o-Chaut Mahto, Sri Medhu Mahto, Parisan Mahto, Lalan Mahto s/o- Prasad Mahto, Sri Pramod Mahto s/o-Lalan Mahto, Dehe
			671	Private	Agriculture	0.097	Sri Balc Hajra s/o-Lachhan Hajra, Dwarika Paswan, Mausafir Paswan s/o-Mahang Paswan, Beer Chhapra
			672	Private	Agriculture	0.011	Dwarika Paswan, Mausafir Paswan s/o-Mahang Paswan, Beer Chhapra
			673	Private	Agriculture	0.042	Sri Malikar Mahto, Asarfi Mahto s/o-Sudhan Mahto, M. Lagni w/o-Late Chana Dev Mahto, Devraj Mahto, Jamdhari Mahto s/o-Ugan Mahto, Surya Mahto s/o-Vudhan Mahto, M. Kaushalya, Harpur
			674	Private	Agriculture	0.040	Sri Anant Mahto, Sanichar Mahto, Dashrath Mahto s/o-Shivdeni Mahto, Sitaran Mahto, Sajawal Mahto s/o-Kishun Mahto
			675	Govt	Road	0.028	N.H.
			666	Private	Built Up	0.007	Sri Anant Mahto s/o-Shivdeni Mahto, Sri Sanichar Mahto s/o-Shivdeni Mahto, Sri Dasrath Mahto s/o-Shivdeni Mahto, Sita Ram mahto s/o-Kishun Mahto, M. Panmati w/o-Late Sukhari Mahto, ri Sajawal Mahto s/o-Kishun Mahto, Dehe
			667	Private	Built Up	0.025	Sri Malikar Mahto, Asarfi Mahto s/o-Sudhan Mahto, Jaganath Mahto, Chandredev Mahtos/o-Sudhan Mahto, Jaldhari Mahto s/o-Ugan Mahto, Devraj Mahto s/o-Ugan Mahto, M. Keshiya w/o-Late Roop Narayan Mahto, Sri Surya Mahto s/o-Vudhan Mahto, Dehe
			668	Private	Agriculture	0.015	Malikar Mahto, Asarfi Mahto s/o-Sudhan Mahto, dehe
			669	Private	Agriculture	0.030	Hiralal Ram, Achhelal ram s/o-Murat Hajra, Beer Chhapra
			691	Private	Agriculture	0.018	Jokhan Mahto s/o-Langath Mahto, Beer Chhapra
			689	Private	Agriculture	0.007	Dasrath Mahto, Sanicha Mahto, Anant Mahto s/o-Shivdeni Mahto, Dehe
			941 (Right)	Private	Agriculture	0.002	Sri shankar Rai, Jagnath Rai s/o-Ramvaran Rai, Hiralal rai s/o-Ramchandre Rai, Guddu Rai s/o-Jawahir Rai, Dehe
			940	Private	Agriculture	0.004	Sri shankar Rai, Jagnath Rai s/o-Ramvaran Rai, Hiralal rai s/o-Ramchandre Rai, Guddu Rai s/o-Jawahir Rai, Dehe
			939	Private	Agriculture	0.011	Ram Jivan Mahto s/o-Bharos Mahto, Ganesh Mahto, Mahesh Mahto s/o-Nathuni Mahto, Rajendre Mahto, Maheshwer Mahto s/o-Mandhari Mahto, Dehe
			933	Private	Agriculture	0.010	Vanshi Mahto s/o-Lakhan Mahto, Sri Vijli Mahto s/o-Radhika Mahto, Sri Krishna Mahto s/o-Jagdev Mahto, Sipahi Mahto s/o-Jagdev Mahto, Lashminia w/o-Late Mandhari Mahto, Dehe
			931	Private	Agriculture	0.034	Vanshi Mahto s/o-Lakhan Mahto, Vijli Mahto s/o-Radhika Mahto, Krishna Mahto s/o-Jagdev Mahto, Sipahi Mahto s/o-Jagdev Mahto, Dehe
			916	Private	Agriculture	0.012	M. Asyia w/o-Late Hari Mahto, Dehe
			914	Private	Agriculture	0.019	M. Asyia w/o-Late Hari Mahto, Dehe

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			910	Private	Agriculture	0.028	Shivpujan Mahto etc. s/o-Wega Mahto,Jagesar Mahto s/o-Santoshi Mahto,Vishundev Mahto,Sukhdev Mahto s/o-Jogan Mahto,Dehe
			909	Private	Agriculture	0.035	Motilal Mahto s/o-Sanphool Mahto,Shivpujan Mahto s/o-Wega Mahto,Hiril Mahto s/o-Ramdayal Mahto,Shiv Govind Mahto s/o-Ramdayal Mahto,Rajendre Mahto s/o-Ramdhari Mahto,Ramchandre Mahto s/o-Sanphool Mahto,Dehe
			906	Private	Agriculture	0.080	Bachhu Singh s/o-Ramswaroop Singh,M.Agmari Kunwar w/o-Late Suryajeet Singh,Yogendre Singh s/o-Shiv Vanshi Singh,Beer ChhapraRajendre Mahto,Maheshwar Mahto s/o-Mandhari Mahto,Dehe
			905	Govt.		0.033	Gair Aam
			903	Private	Agriculture	0.032	M.Sanjhari Kunwar w/o-Late Kamal Mahto,M.Kimti Kunwar w/o-Late Ram Kishun Mahto,Dehe-Hiralal Mahto s/o-Ram Bahadur Mahto c/o-Shikari Mahto s/o-Banshi Mahto,Vagri Dahauri Tola
			902	Private	Agriculture	0.007	M.Sanjhari Kunwar w/o-Late Kamal Mahto,M.Kismati Kunwar w/o-Late Kishun Mahto,DeheHiralal Mahto s/o-Ram Bahadur Mahto c/o-Shikari Mahto s/o-Banshi Mahto,Vagri Dahauri Tola
			959	Private	Agriculture	0.009	
			858	Private	Agriculture	0.052	Lagni Devi w/o-Chandre Dev Mahto,Jaganath Mahto s/o-Chandre Dev Mahto,Dehe-Motilal Pr.,Babulal Pr.,Rajendre Pr.,Yogendre Pr. s/o-Aatma Pr.,Shivnath Pr.,Dhenukh Pr.,Sukhnandan Pr.,Suresh Pr.,Sudist Pr. s/o-Niranjan Pr.,Beer Chhapra
			857	Private	Agriculture	0.067	Shivnath Pr.,Sukhnandan Pr. s/o-Denukh Pr.,Suresh Pr.,Sudist Pr. s/o-Niranjan Pr.,Beer Chhapra
			856	Private	Agriculture	0.031	Shivnath Pr.,Sukhnandan Pr. s/o-Denukh Pr.,Suresh Pr.,Sudist Pr. s/o-Niranjan Pr.,Beer Chhapra
			677	Private	Agriculture	0.043	Shivnath Pr.,Sukhnandan Pr. s/o-Denukh Pr.,Suresh Pr.,Sudist Pr. s/o-Niranjan Pr.,Beer Chhapra
			678	Private	Agriculture	0.118	Surendre Rai s/o-Bholi Rai,Sri Umesh Rai s/o-Late Jadolal Rai,Dehe
			680	Private	Built Up	0.044	M.Parwati w/o-Late Jadolal Rai,Dehe
			692	Private	Agriculture	0.018	Malikar Mahto s/o-Awadh Mahto,dehe
		(4) Beer Chhapra	1549 (Left)	Govt.		0.033	Aam Ghair Majrua Raasta
			1548	Private	Agriculture	0.069	Shivnath Prasad s/o-Late Dhanukh Prasad,Beer Chhapra-Sukhnand Prasad s/o-Dhenukh Prasad,Sudish Prasad s/o-Late Niranjan Prasad,Dehe
			1546	Private	Agriculture	0.015	Shivnath Prasad s/o-Late Dhanukh Prasad,Sukhnandan Prasad s/o-Late Dhenukh Prasad,Sudish Prasad s/o-Late Niranjan Prasad,Dehe
			1545	Private	Agriculture	0.050	Jang Bahadur s/o-Chethru Singh,Sanjay Singh s/o-Late Yugti Singh,Dehe
			1544	Private	Agriculture	0.100	Shivnath Prasad s/o-Dhaneshwer Prasad,Mahendra Prasad s/o-Late Bachhan Prasad,Chandeshwer Prasad s/o Madho Prasad,Harender Prasad, s/o-Late Mahadev Prasad,Raghu Beer Prasad s/o-Surya Prasad,Dehe
			1542	Private	Agriculture	0.009	Bachhoo Singh s/o-Ram Swaroop Singh,Dehe
			1565	Private	Agriculture	0.004	Deena Pandit s/o-Late Sukhari Pandit,Baltharwa

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			1543	Private	Agriculture	0.038	Murat Ram s/o-Late Puran Hajra,Ramshre Paswan s/o-Late Bigan Paswan,Minilal Hajra s/o-LateSurat Hajra,Beer Chhapra
			1541	Private	Agriculture	0.056	Daroga Rai,Sadhu Rai s/o-Late Butai Rai,Baltharwa
			1540	Private	Agriculture	0.049	Daroga Rai,Sadhu Rai s/o-Late Butai Rai,Baltharwa
			1515	Private	Agriculture	0.045	Bahadur Pandit s/o-Late Budhan Pandit,Baltharwa-Gangadhar Thakur s/o-Late Janak Thakur,Beer Chhapra
			1516	Private	Agriculture	0.037	Shanti Devi,Jauje Shambhu Sharan Prasad & Gangadhar Thakur s/o-Late Janak Thakur,Bagri
			1508	Private	Agriculture	0.004	Shanti Devi,Jauje Shambhu Sharan Prasad,Bagri & Ganga Thakur s/o-Janak Thakur,Veer Chapra
			1509	Private	Agriculture	0.051	Gangadhar Thakur s/o-Late Janak Thakur,Beer Chhapra-Shanti Devi,Jauje Shambhu Sharan Prasad,Bagri
			1500	Private	Built Up	0.036	Kishun Pandit s/o-Late Kunkun Pandit,Dhanraj Pandit s/o-Rudal Pandit,Baltharwa
			1497	Private	Built Up	0.028	Bahadur Pandit s/o-Late Budhan Pandit,Puran Pandit s/o-Late Budhan Pandit,Salaha Bhagat s/o-Late Ramshre Bhagat,Baltharwa
			1494	Private	Built Up	0.021	Hrem Prasad,Bharat Prasad s/o Late Raj Dhari Prasad
			1493	Govt.		0.002	Road, Gair aam
			1512	Govt.		0.043	Road, Gair aam
			1444	Private	Built Up	0.005	Sukai Rai s/o-Mathura Rai,Dhanpat Rai s/o-Varan Rai,Dehe
			1447	Private	Built Up	0.012	Sukai Rai,Chhatu Rai,Jainarayan Rai,s/o-Bhutukh Rai,Baltharwa
			1449	Private	Agriculture	0.007	Chaudhur Rai s/o-Kumbha Rai & Sajawal Rai,Dehe
			1455	Private	Agriculture	0.006	Arun Kumar,Varun Kumar s/o-Sri Gorakh Prasad,Dehe
			1452	Private	Agriculture	0.013	M. Kalawati Jauje Chhattu Bhagat,Nathuni Bhagat s/o-Shivnarayan Bhagat,M. Kanti Jauje Laloo Bhagat,Dehe
			1451	Private	Agriculture	0.009	
			1553 (Right)	Private	Agriculture	0.027	Banti Prasad s/o-Lachari Prasad,Beer Chhapra
			1551	Private	Agriculture	0.031	Rajeswer Singh s/o-LateRam Avtar Singh,Beer Chhapra
			1452	Private	Agriculture	0.043	
			1556	Private	Agriculture	0.013	Sukhnandan Prasad,Shiv Nath Prasad s/o-Late Dhenukh Prasad,Dehe
			1547	Private	Agriculture	0.028	Bharat Singh,Ramshwer Singh s/o-Indre Dev Singh,Dehe
			1559	Private	Agriculture	0.012	Achhelal Ram s/o- Murat Ram,Dehe
			1561	Private	Agriculture	0.022	Vashisht Narayan Singh s/o- Sri Yogender Singh,Dehe
			1562	Private	Agriculture	0.023	Vashisht Narayan Singh s/o- Sri Yogender Singh,Dehe
			1563	Private	Agriculture	0.033	Kishun Pandit s/o-Late Kunkun Pandit,Baltharwa-M.Asha Kunwar w/o-Bhatuk Singh,Beer chhapra
			1564	Private	Agriculture	0.029	Kishun Pandit s/o-Late Kunkun Pandit,Baltharwa
			1565	Private	Agriculture	0.063	Deena Pandit etc. s/o-Late Sukhari Pandit,Baltharwa
			1543	Private	Agriculture	0.020	Murat Ram s/o-Late Puran Hajra,Ramshre Ram s/o-Late Bigan Ram,Minilal Hajra s/o-Late Sukhat Hajra,Beer Chhapra
			1537	Private	Agriculture	0.057	Shankar Thakur s/o-Late Tappa Thakur,Lalan Thakur s/o-Kishun Dev Thakur,Baltharwa
			1538	Private	Agriculture	0.036	Motilal Jaiswal s/o-Late Saryug Prasad,Cand Saraiya

538 GI/05-6

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			1539	Private	Agriculture	0.021	Jitan Prasad s/o-Late Punit Prasad,Baltharwa
			1517	Private	Agriculture	0.015	Shakal Prasad s/o-Dhanai Prasad,Dehe
			1507	Private	Agriculture	0.009	Gangadhar Thakur s/o-Late Janak Thakur,Dehe
			1518	Private	Agriculture	0.006	Sakal Prasad s/o-Dhanai Prasad,Baltharwa
			1506	Private	Agriculture	0.017	Yogender Prasad Kushwaha s/o-Late Ramvaran Prasad,Baltharwa
			1505	Private	Agriculture	0.023	Ramchandre Pandit s/o-Mangal Pandit,Baltharwa
			1504	Private	Agriculture	0.008	Yodha Ram s/o-Late Krit Rai,Baltharwa
			1501	Private	Built Up	0.023	Bharat Prasad s/o-Late Asarfi Prasad,Baltharwa
			1502	Private	Built Up	0.007	Gorakh Prasad Singh s/o-Late Ram Avtar Prasad Singh
			1499	Private	Built Up	0.018	Surendre Mistri s/o-Anurudh Mistri & Ganesh Sharma,Rajeshwer Sharma s/o-Late Ram Chandre Sharma,Baltharwa
			1493	Govt.		0.016	Road, Gair aam
			1492	Private	Agriculture	0.019	Roop Narayan Prasad s/o-Late Lakh Prasad,Jogesh Prasad s/o-Late Indrasan Prasad,Baltharwa
			1473	Private	Agriculture	0.020	Rishimuni Rai s/o-Late Ramrup Rai,Suraj Rai,Beer Bal Rai s/o-Dahari Rai,Baltharwa
			1469	Private	Agriculture	0.005	Beer Bal Rai s/o-Late Dahari Rai,Baltharwa
			1462	Private	Agriculture	0.006	Sakaldev Prasad s/o-Late Dhanai Prasad,Mahendre Prasad s/o-Bachhan Prasad,Baltharwa
			1463	Private	Agriculture	0.007	Hakim Giri s/o-Late Seth Giri,Dehe
			1467	Private	Agriculture	0.006	Satya Narayan Giri s/o-Pheku Giri,Dehe
			1464	Private	Agriculture	0.007	M. Jauje Rajendre Rai,Dehe
			1457	Private	Agriculture	0.004	Road. Gair Majrwa
3	Chakia	(1) Parsauni Klem	2(Left)	Private	Agriculture	0.035	Sri Madan Kumar Pr.s/o-Ram Vrich Prasad,Chakwara-Sri Shambhu Mahto,Madan Mahto s/o-Kailash Mahto,M.Shushila w/o-Late Shubhash Mahto,Prasauni Khem-Devdhari Mahto s/o-Bhola Mahto,Hira Mahto s/o-Horil Mahto,Lagan Mahto s/o-Horil Mahto,Dehe
			7	Private	Agriculture	0.094	Adalati Mahto,Asarfi Mahto,Jainath Mahto,Sonalal Mahto s/o-Lagan Mahto,Lagan Mahto s/o-Horil Mahto,Smt.Dharohari Devi w/o-Lagan Mahto,Lalan Singh s/o-Prameshwer Singh,Dehe-Maheshwari Singh s/o-RaghuBeer Singh,Bakhri Chakwara
			8	Private	Agriculture	0.054	Sukhai Rai s/o-Mahadev Rai,Sri Ajay Rai s/o-Parichhan Rai,Dehe
			18	Private	Agriculture	0.135	Ramshabd Singh s/o-Raja Singh,Lalan Singh s/o-Prameshwer Singh,Dehe
			48	Private	Agriculture	0.003	Surya Bhagat s/o-Gokhul Bhagat,Dehe
			49	Private	Agriculture	0.119	Akhilshwer Prasad s/o-Yogendre Prasad,Banshi Bhagat s/o-Gokhul Bhagat,Dehe
			50	Private	Agriculture	0.063	Sri Baban Dwivedi,Shashi Bhushan Dwivedi,Amrendre Dwivedi,Narendre Dwivedi s/o-Ram Chandre Dwivedi,Sri Yodha Bagat s/o-Surat Bhagat,Dehe
			62	Private	Agriculture	0.011	Sri Anaras Mahto s/o-Shiv Dhari Mahto,Dehe
			63	Private	Agriculture	0.061	Sri Bhola Mahto s/o-Dhorai Mahto,Sri Ganesh Mahto,Vilash Mahto,Harihar Mahto,Yogendre Mahto,Tilak Dhari Mahto s/o-Khelawan Mahto,Dehe
			64	Private	Agriculture	0.052	Yogendre Prasad s/o-Mahendre Prasad
			65	Private	Agriculture	0.048	Sri Pati Ram Rai s/o-Dhenuksh Dhari Rai,Dehe

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			66	Private	Agriculture	0.042	Ramvrich Mahto s/o-Bulaki Mahto,Dehe
			67	Private	Agriculture	0.020	Sri Kishun Rai s/o-Shiv Mangal Rai,Dehe
			68	Private	Agriculture	0.024	Sri Kishun Rai s/o-Shiv Mangal Rai,Dehe
			70	Private	Agriculture	0.057	Pashu Pati Nath Khetan s/o-Raj Kumar Khetan,Motihari Stn.Road
			71	Private	Agriculture	0.002	Sri Lagan Mahto s/o-Horil Mahto,Dehe
			72	Private	Agriculture	0.053	Pati Ram Rai s/o-Dhanush Dhari Rai,Dehe
			74	Private	Agriculture	0.025	Pashu Pati Nath Khetan s/o-Raj Kumar Khetan,Motihari Stn.Road
			75	Private	Agriculture	0.010	Sri Jal Dhari Mahto s/o-Bhola Mahto,Dehe
			1561	Private	Agriculture	0.049	Sri Yodha Bagat,Badri Bagat,Jitu Bagat s/o-Surat Bagat,Dehe-Sri Rambabu Sinh s/o-Chandrika Sinh,Narkatia &Smt.Shanti Devi w/o-Kapil Dev Sinh,Chakwara,Bhakhri
			99 (Right)	Private	Agriculture	0.615	Pashu Pati Nath Khetan s/o-Raj Kumar Khetan,Motihari Stn.Road
			102	Private	Agriculture	0.381	Pashu Pati Nath Khetan s/o-Raj Kumar Khetan,Motihari Stn.Road
			105	Private	Agriculture	0.698	Pashu Pati Nath Khetan s/o-Raj Kumar Khetan,Motihari Stn.Road-Sri Baijulal Rai s/o-Ram Ekbal Rai & Uttim Rai,Ram Bahadur Rai,Ram Snehi Rai s/o-Ram Deshu Rai,Dehe
			106	Private	Agriculture	0.451	Champran Sugar Factory,Chakiya
			107	Private	Agriculture	0.282	
			108	Private	Agriculture	0.122	
			109	Private	Agriculture	0.052	
			126	Private	Agriculture	0.061	
			127	Private	Agriculture	0.233	
			128	Private	Agriculture	0.107	
			129	Private	Agriculture	0.114	
			135	Private	Agriculture	0.007	
			137	Private	Agriculture	0.081	
			138	Private	Agriculture	0.124	
			139	Private	Agriculture	0.110	
			141	Private	Agriculture	0.051	
			142	Private	Agriculture	0.010	Sri Ajay Rai s/o-Parichhan Rai,Dehe
			1560	Private	Agriculture	0.060	

[F. No. NHAI/40020/2/C-III/2002/Tech.-III]

ALOK RAWAT, Jt. Secy.